



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
SEMESTER SYLLABUS
M.Sc. PHYSICS

SCHEME OF EXAMINATION & DISTRIBUTION OF MARKS

SEMESTER I

Paper No.	Title of the Paper	Internal Assessment	Term End Exam	Total Marks
1.	Mathematical Methods-I	20	80	100
2.	Classical Mechanics	20	80	100
3.	Numerical Methods and C Programming	20	80	100
4.	Electronics-I	-	-	100
LAB I	General	-	-	100
LAB II	Computer Programming	-	-	100
TOTAL				600

SEMESTER II

Paper No.	Title of the Paper	Internal Assessment	Term End Exam	Total Marks
1.	Mathematical Methods-II	20	80	100
2.	Quantum Mechanics-I	20	80	100
3.	Electrodynamics	20	80	100
4.	Electronics-II	-	-	100
LAB I	Electronics (Devices)	-	-	100
LAB II	Electronics (Circuits) Power supply, Amplifier, Oscillators, Modulation, Detection etc.	-	-	100
TOTAL				600

SEMESTER III

Paper No.	Title of the Paper	Internal Assessment	Term End Exam	Total Marks
1.	Quantum Mechanics II	20	80	100
2.	Statistical Mechanics	20	80	100
3.	Condensed Matter Physics I	20	80	100
4.	Electronics III	20	80	100
LAB I	Condensed Matter Physics	-	-	100
LAB II	Digital Electronics	-	-	100
TOTAL				600

SEMESTER IV

Paper No.	Title of the Paper	Internal Assessment	Term End Exam	Total Marks
1.	Condensed Matter Physics II	20	80	100
2.	Nuclear Physics	20	80	100
3.	Atomic and Molecular physics	20	80	100
4.	Electronics IV	20	80	100
5.	Project	-	-	200
TOTAL				600
GRAND TOTAL				2400



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर
(छत्तीसगढ़)

सेमेस्टर पाठ्यक्रम

M.Sc. ZOOLOGY

SEMESTER-I
LAB-COURSE I

Time-06 Hours
Max. Marks-100

Invertebrates

1. Study of non-chordates through museum specimen
2. Study of permanent slides of non-chordates
3. Dissection of representative types (invertebrates)
4. Squilla, Mytilus, Sepia, Aplysia, Echinus

5. Mounting-

Permanent and suitable stained micro-preparation
Earthworm-nerve ring, ovary, spermathecal, nephridia
Cockroach-mouth parts, salivary glands, trachea
Prawn appendages, statocyst
Protozoan- rhizopods, flagellates and ciliates (fresh water forms) prolozoon
ullase
Porifera-spicule sand gemmules of fresh water sponges
Crustaceans and rotifers
Larval forms of the free living invertebrates

Animal behaviour-

6. Experiments related to Animal Behaviour

Feeding behaviour in house fly
Life cycle of Lac insect and honey bee (chart/model/material)
Study of structural organization of the bee hive
Learning behaviour-
Conditioned and unconditioned reflex

7. Projects-


- a) Visit to study the management of following->
Fish farm, dairy farm, poultry farm, sericulture and apiculture
- b) Study of Invertebrate local fauna
- c) Any other relevant topic

Student should prepare a report and submit

Note-

1. Use of animal for dissection and practical work is subject to the conditions that they are not banned under the wildlife protection act
2. External features and anatomy should be studied by digital techniques and the alternatives. Wherever live animals is studies it should be either pest or colourable species without painning them

Handwritten signature





अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर
(छत्तीसगढ़)

सेमेस्टर पाठ्यक्रम
M.Sc. ZOOLOGY

M.Sc. Semester III

Zoology Practical

Lab-course I

(Comparative Anatomy)

1. Dissection of animals :- Amphioxus, Scoliodon, Electric ray, Sting ray, Calotis, Bird head, Rat (Subject to availability of material) / study through alternative methods of dissection.

2. Micro preparation of suitable and available material.

3. Study of the representative examples of different classes of Chordates.

4. Study of permanent slides showing whole mount or section as per Theory syllabus, including embryological slides of Frog and Chick.

5. Osteology of Amphibia, Reptile, Bird, Mammal.

6. Study of animal diversity by field trip and excursion, Extension activity to spread health awareness. Students have to submit project report.

Biosystematics, taxonomy & Biodiversity

1. Study of biodiversity among various invertebrates and vertebrates (Listing of all the animals found in and around your house and also try to find out their Zoological names)

2. Collection of various insect species

3. Visits to a local animal park or zoo to identify and study the captive fauna and preparation of report

4. Study of adaptive characteristics of various invertebrates and vertebrates in different climate

5. Taxonomic key formation and conversion

6. Study of biodiversity in grassland and pond water by using Shannon - Weiner index .

M.Sc. Semester III

Zoology Practical

Lab-course I

Time-06

Max. Marks-100

Hours

Distribution of marks in practical exam.

1. Dissection of Vertebrate (virtual/other method)
(10)

2. Spotting 1 to 10

(20)

3. Micro preparation

(10)

(Handwritten signature)



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर
(छत्तीसगढ़)
सेमेस्टर पाठ्यक्रम
M.Sc. ZOOLOGY

Exercise based on ECG/EEG (10)

4. Viva (10)
5. Sessional (20)

Total = 100

BILASPUR UNIVERSITY, BILASPUR

M.Sc. Semester IV

Zoology Practical
Lab-course II

Practical (Special Paper Fishes)

1. Anatomy of different systems of Fresh water Fishes through dissections
2. Osteology of Fishes
3. Microscopic Preparation
4. Taxonomic study of Fishes through Museum specimen and collection
5. Identification of Fresh water Fishes of Chhattisgarh up to species level
6. Field work/ Industry visit and preparation of Record

M.Sc. Semester IV

Zoology Practical

Lab-course II

Time-06

Hours

Max. Marks-100

Distribution of marks in practical exam.

- | | |
|--|------|
| 1. Dissection of fresh water fish /Virtual | (10) |
| 2. Spotting (1 to 10) | (20) |
| 3. Slide preparation | (10) |
| 4. Identification of fresh water fishes | (20) |
| 5. Project Report and field visit | (10) |
| 6. Viva | (10) |
| 7. Sessional | (20) |

Total = 100

(Handwritten signature)





अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर
(छत्तीसगढ़)
सेमेस्टर पाठ्यक्रम
M.Sc. ZOOLOGY

SCHEME OF EXAMINATION & DISTRIBUTION OF MARKS

SEMESTER - I

Paper No.	Title of the Paper	Marks	
		External	Internal
I	Invertebrate structure and function, Minor Phyla	80	20
II	Animal Behaviour	80	20
III	Quantitative Biology	80	20
IV	Ecology and environmental physiology	80	20
	M.Sc. Zoology Lab Course I	100	
	M.Sc. Zoology Lab Course II	100	

SEMESTER - II

Paper No.	Title of the Paper	Marks	
		External	Internal
I	General & comparative endocrinology of vertebrates	80	20
II	Gamete biology and reproductive physiology in human beings	80	20
III	Molecular cell biology	80	20
IV	Tools and techniques for biology	80	20
	M.Sc. Zoology Lab Course I	100	
	M.Sc. Zoology Lab Course II	100	

SEMESTER - III

Paper No.	Title of the Paper	Marks	
		External	Internal
I	Comparative anatomy of vertebrates	80	20
II	Biosystematics, taxonomy & biodiversity	80	20
III	Immunology and developmental biology	80	20
IV	Population genetics & evolution	80	20
	M.Sc. Zoology Lab Course I	100	
	M.Sc. Zoology Lab Course II	100	

SEMESTER - IV

Paper No.	Title of Paper	Marks	
		External	Internal
I	General physiology and neurophysiology (compulsory)	80	20
II	Biochemistry and metabolic regulation and cell function (compulsory)	80	20
Optional Group-I			

(Handwritten signature)



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छत्तीसगढ़)

सेमेस्टर पाठ्यक्रम
M.Com.


General Insurance

SCHEME OF EXAMINATION & DISTRIBUTION OF MARKS

महत्वपूर्ण नोट:-

1. एम.कॉम प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सेमेस्टर में सभी प्रश्न-पत्र अनिवार्य होंगे। उक्त परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न-पत्र चयन की व्यवस्था नहीं होगी।
2. एम.कॉम चतुर्थ सेमेस्टर में विशिष्टीकरण समूह (A),(B) या (C) में से किसी भी एक वैकल्पिक समूह का चयन कर उस समूह के सभी चार प्रश्न-पत्र अनिवार्य रूप से लेने होंगे।
3. एम.कॉम. चतुर्थ सेमेस्टर में उपरोक्त विशिष्टीकरण समूह के अतिरिक्त 50 अंक की मौखिक परीक्षा तथा 50 अंक का परियोजना प्रतिवेदन (अधिकतम 50 पृष्ठों का) तैयार करना अनिवार्य होगा। यह प्रतिवेदन वाणिज्य या प्रबंध विषय से संबंधित होगा।
4. सभी प्रश्न-पत्रों में लिखित परीक्षा 80 अंकों की तथा 20 अंकों की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होगी।
5. आंतरिक परीक्षा एवं बाह्य परीक्षा में प्रश्न पत्रवार न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत होगा। जो विश्वविद्यालयीन अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार होगा।

[Handwritten Signature]





अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

सेमेस्टर पाठ्यक्रम
M.Com.

M.Com. - Semester IV

Special attention to the students. Students are required to select 'any one' Specialization out of Three suggested below.

Choice Based – Specialization

- (A) Marketing
- (B) Management
- (C) Banking and Insurance

Optional Group- (A) Marketing

Paper No.	प्रश्न पत्र का नाम	Internal Assessment	Term End Exam	Total Marks
1.	विपणन के सिद्धांत Principal of Marketing	20	80	100
2.	विज्ञापन एवं विक्रय Advertising & Sales Management	20	80	100
3.	विपणन अनुसंधान Marketing Research	20	80	100
4.	अन्तर्राष्ट्रीय विपणन International Marketing	20	80	100

Optional Group- (B) Management

Paper No.	प्रश्न पत्र का नाम	Internal Assessment	Term End Exam	Total Marks
1.	वित्तीय प्रबंध Financial Management	20	80	100
2.	कर्मिक प्रबंध Personal Management	20	80	100
3.	उत्पादन प्रबंध Production Management	20	80	100
4.	व्यवस्थापना प्रबंध Strategic Management	20	80	100

Optional Group- (C) Banking and Insurance

Paper No.	प्रश्न पत्र का नाम	Internal Assessment	Term End Exam	Total Marks
1.	बैंकिंग व्यवहार Banking Practices	20	80	100
2.	भारत के बैंकिंग संस्थाएँ Banking Institution in India	20	80	100
3.	जीवन बीमा Life Insurance	20	80	100
4.	सामान्य बीमा	20	80	100

(Handwritten signature)



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

BACHELOR OF LAWS (LL.B.)
(06 SEMESTER COURSE)
SYLLABUS

8. अंतर्राष्ट्रीय विधि - एस.के. कपूर

PART- III (II SEM.)

PAPER- V

PRACTICAL TRAINING (SESSIONAL)

MOOT COURT EXERCISES AND INTERNSHIP

100 Marks

This Paper will have three components of 30 marks each and a viva voce for 10 marks.

(a) Moot Court (30 marks)

Every student will do at least three moot courts in a year with 10 marks for each. The moot court work will be on assigned problems. It will be evaluated for 5 marks for written submission and shall be in the form of the written test organized by the college. The duration of the test will be one and half hours (90 Minutes)

(b) Observance of Trial in two cases, one Civil and one Criminal (30 marks):

Students will attend two trials. They will maintain a record and enter the various steps observed during their attendance of different days in the court assignment. This scheme will carry 30 marks. (20 mark for diary and 10 Marks for written test.)

(c) Interviewing techniques and Pre- Trial Preparation (30 Marks):

Each student will observe two interviewing sessions of clients at the Lawyer's Office/Legal Aid Office and record the proceedings in a diary which will carry 15 marks. Each student will further observe the preparation of documents and court papers by the Advocate on the procedure for the filling of the suit/petition. This will be in the form of written test.

(d) The fourth component of this paper will be Viva Voce examination of all the above three aspects. This will carry 10 marks.



Session 2019-20

S.N.	Students Name	Project Name
1	Manisha Kashyap	Waste water treatment plant
2	Savitri Sahu	Automatic Phase changer
3	Swati Rathore	Tesla coil
4	Yugal Kishore Yadav	Thermal Power Plant
5	Amit Kerketta	Thermal Power Plant
6	Jyoti Yadav	Waste water treatment plant
7	Ajay Bairagi	Li-Fi data transmission devices
8	Aashish Dewangan	Thermal Power Plant
9	Motilal Sahu	Laser light detector
10	Naresh Patel	Laser light detector



11	Rajendra Gupta	Li-Fi data transmission devices
12	Yoddha Patel	Li-Fi data transmission devices
13	Sudha Dewangan	Tesla Coil
14	Hema sahu	Automatic Phase changer
15	Vandana Sahu	Tesla Coil
16	Sitara Kumhar	Waste water treatment plant
17	Rangeet Singh	Automatic Phase changer

[Handwritten signature in green ink]



GOVT. TCL PG COLLEGE, JANJGIR

DEPARTMENT OF ZOOLOGY

PROJECT WORK BY M.Sc. ZOOLOGY

Year- 2019-20

S.NO.	STUDENT'S NAME	FATHER'S NAME	M.Sc. FIRST SEM.
1.	ANJALI URANW	KASHMIRI LAL	LOCAL FAUNA OF INVERTEBRATE
2.	BHARTI SAHU	SITARAM SAHU	LOCAL FAUNA OF INVERTEBRATE
3.	INDU SAGAR	NAMMU LAL	LOCAL FAUNA OF INVERTEBRATE
4.	DIGREE PRASAD	RAMESHWAR DAU	LOCAL FAUNA OF INVERTEBRATE
5.	GITESH GOSWAMI	GAJANAND	LOCAL FAUNA OF INVERTEBRATE
6.	KIRAN PATEL	PUNIT RAM	DAIRY FORM
7.	MAMTA KASHYAP	DEVNARAYAN	DAIRY FORM
8.	JYOTI RATHORE	MANISHANKAR	DAIRY FORM
9.	INDU SAGAR	GIRIBAL SINGH	DAIRY FORM
10.	MAMTA SAHU	LOTRAM	DAIRY FORM
11.	NALINI SINGH	CHANDRAHASH	POULTRY FORM
12.	MITESH JOGI	SANTOSH	POULTRY FORM
13.	NARSINGH	KAUSHAL SINGH	POULTRY FORM
14.	MANJU	SURESH KUMAR	POULTRY FORM
15.	PRIYANKA SAHU	PUSHKAR SAHU	PISCICULTURE
16.	NIRMAL	ROHIT KUMAR	PISCICULTURE
17.	NIKITA SINGH	RAGHUNANDAN	PISCICULTURE
18.	NIKITA THAWAIT	ANIL	PISCICULTURE
19.	OM KUMARI	SUKHRAM DAS	PISCICULTURE
20.	SANJAY SAHU	GULABCHAND	SERICULTURE
21.	SEEMA JALTATRE	KRISHNA	SERICULTURE
22.	RAJNI	RATHRAM JANGDE	SERICULTURE
23.	REKHA DEWANGAN	BANWARI LAL	SERICULTURE
24.	RAVI KANWAR	KUSUM LAL	SERICULTURE
25.	SUMAN RATHORE	DHANRAM	APICULTURE
26.	SUMITRA SAHU	RAMKRISHNA	APICULTURE
27.	SUDARSHAN	VISHNU	APICULTURE
28.	VIJAY LAXMI	SATYANARAYAN	APICULTURE
29.	VEDKANTI RATRE	JHADURAM	APICULTURE




GOVT. TCL PG COLLEGE, JANJGIR

DEPARTMENT OF ZOOLOGY

PROJECT WORK BY- M.Sc. ZOOLOGY

Year- 2019-20

S.NO.	STUDENT'S NAME	FATHER'S NAME	M.Sc. THIRD SEM.
1.	SANDEEP KASHYAP	SANAT KUMAR	POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME
2.	GAURAV SINGH	TIJAU RAM	BIODIVERSITY OF AVES
3.	BHARTI GURNANI	SAWAL DAS	HEPATITIS
4.	JYOTI RATHORE	RAJENDRA	BIODIVERSITY OF MAMMALS
5.	SHABNAM PARVEEN	KADIR KHAN	BIODIVERSITY OF AVES
6.	SHWETA RATHORE	GANESH RAM	HEPATITIS
7.	RASHMI RATHORE	HANUMAN PRASAD	BIODIVERSITY OF MAMMALS
8.	DEEPAK SINGH	VISHNU SINGH	POLYCYSTIC OVARIAN -SYNDROME
9.	SHWETA PANDEY	RAJKUMAR	BIODIVERSITY OF MAMMALS
10.	MALTI PANKAJ	SONURAM	HEPATITIS
11.	MAYA SONI	BUDHRAM SONI	POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME
12.	BHUVNESHWARI	SUDAN LAL	BIODIVERSITY OF MAMMALS
13.	JYOTI RATHORE	GORELAL	HEPATITIS
14.	ANNULATA	DAMODAR	BIODIVERSITY OF FISHES
15.	SAROJNI PRATAP	GOKUL PRASAD	BIODIVERSITY OF FISHES
16.	SARASWATI PRADHAN	GOPAL PRADHAN	DIABETES
17.	PRITY SURYAWWANSHI	MALIK RAM	HEPATITIS
18.	PRABHA YADAV	NARENDRA YADAV	BIODIVERSITY OF FISHES
19.	KUMARI JATWAR	MURAT RAM	BIODIVERSITY OF FISHES
20.	MAHIMA KESHARWANI	DEVENDRA KUMAR	BIODIVERSITY OF AVES
21.	NEHA DEVI	RAMESHWAR PRASAD	DIABETES
22.	PRITY PATEL	GHASIARAM	-BIODIVERSITY OF AVES
23.	DURGESHWARI	SAMME LAL	DIABETES
24.	SHWATI MARAVI	RATAN LAL	POLYSYSTIC OVARIAN SYNDROME
25.	DUSHYANT PATEL	NARAYAN PRASAD	BIODIVERSITY OF MAMMAL
26.	ASHOK KUMAR	SAMME LAL	BIODIVERSITY OF FISHES
27.	MONIKA BARETH	JALESHWAR SINGH	BIODIVERSITY OF AVES
28.	VIDYA BHARTI	MILAN PRASAD	DIABETES
29.	KAUSHILYA	SAKHARAM	DIABETES
30.	JYOTI BANJARE	VINOD	POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROM

[Handwritten signature]


Rashyap
13/01/2020

PROJECT (2019-20)

SN	STUDENT'S NAME	FATHER'S NAME	MSC FOURTH SEMESTER
1	ANNULATA	DAMODAR SINGH	IDENTIFICATION OF FRESH WATER FISHES
2	ASHOK KUMAR	SAMMELAL	IDENTIFICATION OF FRESH WATER FISHES
3	BHARTI GURNANI	SAWAL DAS	IDENTIFICATION OF LOCAL FISHES AT JANJGIR
4	BHUVNESHWARI	SUDAN LAL	FISH DIVERSITY IN HASDEV RIVER AT JANJGIR CHAMPA
5	DEEPAK SINGH CHAUHAN	VISHNU SINGH	FISH DIVERSITY IN HASDEV RIVER AT JANJGIR CHAMPA
6	DURGESHWARI SAHU	SAMMELAL SAHU	FISH CULTURE AND FISH FORMING OF CARP FISHES
7	DUSHYANT KUMAR	NARAYAN PRASAD	IDENTIFICATION OF LOCAL FISHES AT JANJGIR
8	GAURAV SINGH	TJAU RAM	FISH DIVERSITY IN HASDEV RIVER AT JANJGIR CHAMPA
9	JYOTI	VINOD KUMAR	FISH DIVERSITY IN HASDEV RIVER AT JANJGIR CHAMPA
10	JYOTI RATHORE	RAJENDRA RATHORE	FISH DIVERSITY IN HASDEV RIVER AT JANJGIR CHAMPA
11	JYOTI RATHORE	GORELAL RATHORE	IDENTIFICATION OF FRESH WATER FISHES
12	KAUSHILYA	SAKHARAM	FISH CULTURE AND FISH FORMING OF CARP FISHES
13	KUMARI JATWAR	MURATRAM	IDENTIFICATION OF LOCAL FISHES AT JANJGIR
14	MAHIMA KESHARWANI	DEVENDRA KUMAR	IDENTIFICATION OF FRESH WATER FISHES
15	MALTI	SONURAM	FISH DIVERSITY IN HASDEV RIVER AT JANJGIR CHAMPA
16	MAYA SONI	BUDHRAM SONI	FISH DIVERSITY IN HASDEV RIVER AT JANJGIR CHAMPA
17	MONIKA BARETH	JALESHWAR BARETH	FISH DIVERSITY IN HASDEV RIVER AT JANJGIR CHAMPA
18	NEHA DEVI	RAMESHWAR PRASAD	FISH CULTURE AND FISH FORMING OF CARP FISHES
19	PRABHA KUMARI YADAV	NARENDRA YADAV	FISH CULTURE AND FISH FORMING OF CARP FISHES
20	PRITI	GHASIYA RAM	FISH CULTURE AND FISH FORMING OF CARP FISHES
21	PRITI SURYAVANSHI	MALIKRAM SURYAVANSHI	IDENTIFICATION OF LOCAL FISHES AT JANJGIR

22	RASHAMI RATHORE	HANUMAN PRASAD	BIODIVERSITY OF CAT FISHES
23	SANDEEP KUMAR	SANAT KUMAR	BIODIVERSITY OF CAT FISHES
24	SARSWATI	GOPAL PRASAD	IDENTIFICATION OF LOCAL FISHES AT JANJGIR
25	SAROJANI	GOKUL PRASAD	BIODIVERSITY OF CAT FISHES
26	SHABNAM PARVEEN	KADIR HUSAIN	IDENTIFICATION OF FRESH WATER FISHES
27	SHWETA PANDEY	RAJKUMAR PANDEY	IDENTIFICATION OF FRESH WATER FISHES
28	SHWETA RATHORE	GANESHRAM RATHORE	BIODIVERSITY OF CAT FISHES
29	SWATI	RATAN LAL	BIODIVERSITY OF CAT FISHES
30	VIDYABHARTI	MILAN PRASAD	BIODIVERSITY OF CAT FISHES

Prepared



शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर

जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

वाणिज्य संकाय

परियोजना प्रतिवेदन

एम.कॉम चतुर्थ सेमेस्टर

सत्र- 2019-20

क्र.	छात्र-छात्रा का नाम	परियोजना प्रतिवेदन का विषय
1.	किरण मिश्रा	भारतीय पोस्ट पैमेंट बैंक (मुख्य शाखा जांजगीर) कार्यप्रणाली व प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
2.	सपना मिश्रा	भारतीय पोस्ट पैमेंट बैंक (मुख्य शाखा जांजगीर) कार्यप्रणाली व प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
3.	पद्मा खटर्जी	सामान्य बीमा एक अध्ययन
4.	अमिष मधुकर	छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नैला की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का समीक्षात्मक अध्ययन
5.	शालिनी सिंह	ए स्टडी आन द वर्क मनेजमेंट ऑफ स्टेट बैंक आफ इंडिया (जांजगीर मेन ब्रांच)
6.	सोनल मित्तल	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन
7.	नीलम गुरुनानी	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन
8.	लक्ष्मी प्रसाद	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर का विश्लेषणात्मक अध्ययन
9.	किरण कुमार	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर का विश्लेषणात्मक अध्ययन
10.	मूपेन्द्र कुमार	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर का विश्लेषणात्मक अध्ययन
11.	योगेश प्रसाद साहू	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
12.	सरिता गौड़	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
13.	दिपांजली राठौर	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
14.	दुर्गेश्वरी श्रीवास	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
15.	सविता देवांगन	भारतीय स्टेट बैंक जांजगीर मुख्य शाखा की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
16.	अंबे कुमारी	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
17.	अकिता साहू	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
18.	अंजली कश्यप	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
19.	कमलेश कुमार साहू	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
20.	लखेश्वरी	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
21.	सुमन साहू	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
22.	सारिका	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
23.	अंजली	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन

(Handwritten Signature)

(Official Stamp)

24.	अंजुला कुरै	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
25.	मंजूलता	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
26.	दशमत बंजारे	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
27.	दीपक बरेठ	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
28.	दिग्विजय सिंह	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
29.	गौरव शुक्ला	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
30.	जय सिंह यादव	भारतीय स्टेट बैंक जांजगीर मुख्य शाखा की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
31.	कोयल सिंह राठौर	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
32.	मुक्ता साहू	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
33.	निर्विदिता अग्रवाल	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन
34.	शशांक साहू	भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा जांजगीर की कार्यप्रणाली एवं प्रबंध व्यवस्था का एक अध्ययन

(Handwritten signature)



विभागाध्यक्ष
वाणिज्य संकाय
शास.टी.सी.एल.स्नातकोत्तर
महाविद्यालय जांजगीर (छ.ग.)

Govt. T.C.L. P.G. College, Janjgir, Chhattisgarh
Department of Law
ACADEMIC SESSION 2019-20
CLASS – LLB III SEMESTER II
List of Students for Practical Training (Moot Court)

Sl. No.	Name of Students
1.	Ajay Kumar Sonwani
2.	Ajeshwari
3.	Akash Tiwari (E)
4.	Akib Ahmad
5.	Akshay Anand Sahu
6.	Alok Kumar Tiwari
7.	Anand Kumar Kashyap
8.	Anand Shukla
9.	Anil Kumar
10.	Anjani Kumar Yadav
11.	Arun Kumar Rathore
12.	Arvind Prasad
13.	Brijesh Kumar Rathore
14.	Chandramani Kashyap
15.	Chandrashekhar Sahu
16.	Chhat Kumari
17.	ChhatrapalLahare
18.	Chhedu Ram Nirala
19.	Deepak Singhanian (E)
20.	Devendra Kumar
21.	Dhannu Kumari Mahant
22.	Dinesh Kumar
23.	Dipak Kumar
24.	Durgesh Kumar




25.	Fiza Afreen
26.	Geetesh Kumar
27.	Girish Modi
28.	Hari Kumar
29.	Hemlata Rathore
30.	Hori Lal Rathore
31.	InduSadhvani
32.	Ishwari
33.	Jaya Ratrey
34.	Jwala Prasad sonwani
35.	Jyoti Ratre
36.	Jyoti Tiwari
37.	Kamal Prasad Sonvani (E)
38.	Kamesh Kumar
39.	KasheeramKurrey
40.	Kavita
41.	Khem Lal Chandra
42.	Khemraj Rathore
43.	Krishna Kant Rathore
44.	Mahavir Dewangan
45.	Mamta Chandra
46.	Maneshvari
47.	Manoj Sharma
48.	Mukesh Kumar Baghel (E)
49.	Mukesh Kumar Rathore
50.	NankiDauSahu
51.	Nasrin Rayeen
52.	Neha Sahu
53.	Nilam Kumari




54.	Nimesh Kumar Rathore
55.	Nisha Kashyap
56.	Om Shanker Rathore
57.	Pankaj Sanwadia
58.	Parmanand
59.	Parmeshwar Prasad
60.	Pooja Shrivastava
61.	Prabhawati
62.	Pramod Kumar Sahu
63.	Pushpa Suryavanshi
64.	Ravi Shankar
65.	Rinku Agrawal
66.	Salim Kumar Sahu
67.	Sanjay Kumar
68.	Sanjiv Kumar
69.	Sarita
70.	Seema Kahra
71.	Sharda Rathore
72.	Sharda Yadav
73.	Shiv Kumar Kashyap
74.	Shiv Kumar (E)
75.	Sita Dewangan
76.	Sita Ram
77.	Sunil Kumar Jhalaria
78.	Surendra Kumar
79.	Suresh Kumar Dhimar
80.	TriptiSoni
81.	Tushar Tiwari (E)
82.	UmakantShrivastava

Dr. P. K. Singh



83.	Umesh Kumar
84.	Upendra Kumar Shrivastava
85.	Vijay Kumar Patel
86.	Vijay Sharma
87.	Vijendra Kumar Kashyap
88.	Vikram Kumar Rathore
89.	Yogesh Kumar
90.	Yogeshwar Prasad Chandra
91.	Balwant Kumar Ratnakar
92.	Balwant Kumar
93.	Mahipal Singh Rathore
94.	Abhishek Kr. Singh
95.	Rakesh Kr. Agrawal

Handwritten signature in green ink.

